



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 4] नई दिल्ली, मार्च 7—मार्च 13, 2010, शनिवार/फाल्गुन 16—फाल्गुन 22, 1931  
No. 4] NEWDELHI, MARCH 7—MARCH 13, 2010, SATURDAY/PHALGUNA 16—PHALGUNA 22, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2010

**का.नि.आ. 11.**—केन्द्रीय सरकार, रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि नीचे अनुसूची में वर्णित भूमि के उपयोग और उपभोग पर जो रक्षा संकर्म के पास की भूमि, अर्थात् नेवल फिजीकल एंड ओसनोग्रेफिक लेबोरेट्री, थिरिक्ककारा, पोस्ट, कोची-682021 है, उक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट निर्बंधनों को अधिरोपित करना आवश्यक है, जिससे कि उक्त भूमि को भवन निर्माण और अन्य अवरोधों से मुक्त रखा जा सके।

2. उक्त भूमि के रेखाचित्र का जिला कलैक्टर, कोची, केरल के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकेगा।

**अनुसूची**

केरल राज्य में नेवल फिजीकल एंड ओसनोग्रेफिक लेबोरेट्री, थिरिक्ककारा, पोस्ट, कोची-682021 की सीमा दीवार की बाहरी मुंडेर के शिखर से पच्चीस मीटर की दूरी के भीतर आने वाले क्षेत्र में समाविष्ट संपूर्ण भूमि।

[फा. सं. डीसीडब्ल्यूई/07/34079/डब्ल्यूडीए/एनपीओएल]

एस. के देब, अवर सचिव

**MINISTRY OF DEFENCE**

New Delhi, the 19th February, 2010

**S.R.O. 11.**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government hereby declares that it is necessary to impose restrictions specified in clause (c) of Section 7 of the said Act upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule below, being land in the vicinity of the work of defence, namely, Naval Physical and Oceanographic Laboratory, Thirikkakara P.O. Kochi-682021, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions.

2. A sketch plan of the said land may be inspected in the office of the District Collector, Kochi, Kerala.

### SCHEDULE

All the land comprised in the area lying within the distance of twenty-five metres from the crest of the outer parapet of the boundary wall of Naval Physical and Oceanographic Laboratory, Thrikkakara P.O. Kochi-682021, in the State of Kerala.

[F. No. DCWE/07/34079/WDA/NPOL]

S. K. DEB, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2010

**का.नि.आ. 12.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आयुद्ध और इलैक्ट्रानिकी प्रणाली इंजीनियरी स्थापन, रक्षा मंत्रालय (समूह 'ग' और समूह 'घ') भर्ती नियम, 2001 को, जहां तक उनका संबंध सिविलियन ड्राइवर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में आयुद्ध और इलैक्ट्रानिकी प्रणाली इंजीनियरी स्थापन में समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय आयुद्ध और इलैक्ट्रानिकी प्रणाली इंजीनियरी स्थापन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सिविलियन मोटर ड्राइवर श्रेणी-1	1*(2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	4500-125-7000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	
(11)	(12)	
प्रोन्नति द्वारा, जिनके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति :</b> ऐसा सिविलियन मोटर ड्राइवर श्रेणी-2, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर ऐसा सिविलियन मोटर ड्राइवर श्रेणी-2, जिसने श्रेणी-2 और साधारण श्रेणी में तेरह वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की है तथा जिसने निम्नलिखित में व्यवसाय परीक्षण पास किया हो :-</p> <p>(i) अंग्रेजी या हिंदी अंकों और अक्षरों को पढ़ने;</p> <p>(ii) वाहनों में साधारण खराबियों को दूर करने की योग्यता ;</p> <p>(iii) कार और मोटर साईकिल की मोटर यांत्रिकी की जानकारी ;</p> <p>(iv) ट्रैफिक नियमों और विनियमों की जानकारी।</p> <p><b>टिप्पण :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :</b></p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी—</p> <p>(क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या</p> <p>(ii) जिन्होंने 4000-6000 रुपए या समतुल्य के वेतनमान के पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; या।</p> <p>(iii) जिन्होंने 3050-4590 रुपए या समतुल्य के वेतनमान के पद पर तेरह वर्ष नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो हल्के वाहनों (जिसके अंतर्गत कार और मोटर साईकिल सम्मिलित हैं) के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो;</p> <p>(ग) जिसे कार और मोटर साईकिल चलाने का तीन वर्ष का अनुभव हो ;</p> <p>(घ) जिसने निम्नलिखित में व्यवसाय परीक्षण पास किया हो :-</p> <p>(i) अंग्रेजी या हिंदी अंकों और अक्षरों को पढ़ने;</p> <p>(ii) वाहनों में साधारण खराबियों को दूर करने की योग्यता ;</p>	

(12)

(iii) कार और मोटर साईकिल की मोटर यांत्रिकी की जानकारी ;

(iv) ट्रैफिक नियमों और विनियमों की जानकारी ।

**टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति—पुष्टिकरण और प्रोन्नति पर विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

लागू नहीं होता ।

1. आयुद्ध और इलैक्ट्रानिकी प्रणाली इंजीनियरी स्थापन से प्रमुख या ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी —अध्यक्ष
2. आयुद्ध और इलैक्ट्रानिकी प्रणाली इंजीनियरी स्थापन से स्थापना अधिकारी —सदस्य
3. आयुद्ध और इलैक्ट्रानिकी प्रणाली इंजीनियरी स्थापन से सैन्यतंत्र अधिकारी —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. सिविलियन मोटर ड्राईवर श्रेणी-2	1*(2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	4000-100-6000 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(8)			(9)			(10)
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता			लागू नहीं होता

(11)

(12)

प्रोन्नति द्वारा, जिनके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

**प्रोन्नति :** ऐसा सिविलियन मोटर ड्राईवर साधारण श्रेणी, जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है, और जिसने निम्नलिखित में व्यवसाय परीक्षण पास किया हो :—

(12)

- (i) अंग्रेजी या हिंदी अंकों और अक्षरों को पढ़ने;
- (ii) वाहनों में साधारण खराबियों को दूर करने की योग्यता;
- (iii) कार और मोटर साईकिल की मोटर यांत्रिकी की जानकारी;
- (iv) ट्रैफिक नियमों और विनियमों की जानकारी ।

**टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

**प्रतिनियुक्ति :**

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी—

- (क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या
- (ii) जिन्होंने 3050-4590 रुपए या समतुल्य के वेतनमान के पद पर आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो हल्के वाहनों (जिसके अंतर्गत कार और मोटर साईकिल सम्मिलित हैं) के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो;
- (ग) जिसे कार और मोटर साईकिल चलाने का तीन वर्ष का अनुभव हो ;
- (घ) जिसने निम्नलिखित में व्यवसाय परीक्षण पास किया हो :-
- (i) अंग्रेजी या हिंदी अंकों और अक्षरों को पढ़ने;
- (ii) वाहनों में साधारण खराबियों को दूर करने की योग्यता ;
- (iii) कार और मोटर साईकिल की मोटर यांत्रिकी की जानकारी ;
- (iv) ट्रैफिक नियमों और विनियमों की जानकारी ।

**टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति—पुष्टिकरण और प्रोन्नति पर विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

1. आयुद्ध और इलैक्ट्रानिकी प्रणाली इंजीनियरी स्थापन से प्रमुख या ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

—अध्यक्ष

(14)

लागू नहीं होता ।

(13)

2. आयुद्ध और इलैक्ट्रानिकी प्रणाली इंजीनियरी स्थापन से स्थापना —सदस्य  
अधिकारी
3. आयुद्ध और इलैक्ट्रानिकी प्रणाली इंजीनियरी स्थापन से सैन्यतंत्र —सदस्य  
अधिकारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. सिविलियन	1*(2010)	साधारण	3050-75-	लागू नहीं	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच ।
मोटर ड्राइवर	*(कार्यभार के	केन्द्रीय सेवा	3950-80-	होता		(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय
(साधारण), आधार पर	परिवर्तन	समूह 'ग'	4590 रु.			पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों
	किया जा	अराजपत्रित,				के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए
	सकता है ।	अननुसचिवीय				सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40
						वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या
						अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की
						दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा
						सकती है ।)
<b>टिप्पण 1 :</b> रोजगार कार्यालयों के						
माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की						
दशा में आयु-सीमा अवधारित करने						
के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम						
तारीख होगी जिस पर रोजगार						
कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा						
गया है ।						
<b>टिप्पण 2 :</b> आयु-सीमा अवधारित						
करने के लिए निर्णायक तारीख भारत						
में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने						
के लिए नियत की गई अंतिम तारीख						
होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो						
असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,						
मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,						
सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के						
लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल						
और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के						
पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार						
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए						
विहित की गई है ।)						

(8)	(9)	(10)
<b>आवश्यक :</b>	लागू नहीं होता	दो वर्ष
(1) हल्के वाहनों (जिसके अंतर्गत कार और मोटर साईकिल सम्मिलित है) के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखना;		

(8)

(2) निम्नलिखित में व्यवसाय परीक्षण पास करना :—

- (i) अंग्रेजी या हिंदी अंकों और अक्षरों को पढ़ने;
- (ii) वाहनों में साधारण खराबियों को दूर करने की योग्यता;
- (iii) कार और मोटर साईकिल की मोटर यांत्रिकी की जानकारी;
- (iv) ट्रैफिक नियमों और विनियमों की जानकारी ।

**टिप्पण**—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

**वांछनीय :—**

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से 8वां स्तर उत्तीर्ण; और
- (ii) गृह रक्षी या सिविल रक्षा स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष सेवा ।

(11)

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या पुनर्नियोजन या स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

(12)

**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या स्थानान्तरण :**

(क) सशस्त्र बल मुख्यालय से ऐसे कर्मचारी, जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ।

(ख) सशस्त्र बल मुख्यालय से ऐसे समूह 'घ' कर्मचारी, जिन्होंने अपनी श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जो विधिमान्य मोटरकार चालन अनुज्ञप्ति धारक है ।

**भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या पुनर्नियोजन :**

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत किसी अन्य विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर बिताई गई प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति—पुष्टिकरण और प्रोन्नति पर विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

लागू नहीं होता ।

1. आयुद्ध और इलैक्ट्रानिकी प्रणाली इंजीनियरी स्थापन से प्रमुख या ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी —अध्यक्ष
2. आयुद्ध और इलैक्ट्रानिकी प्रणाली इंजीनियरी स्थापन से स्थापना अधिकारी —सदस्य
3. आयुद्ध और इलैक्ट्रानिकी प्रणाली इंजीनियरी स्थापन से सैन्यतंत्र अधिकारी —सदस्य

[ फा. सं. ए डी एम/भर्ती नियम/008/निदेशक (समन्वय)/डब्ल्यू ई एस ई ई ]

एन. के. सारवाल, अवर सचिव

New Delhi, the 8th March, 2010

**S.R.O. 12.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Weapons and Electronics Systems Engineering Establishment, Ministry of Defence (Group 'C' and 'D') Recruitment Rules 2001, in so far as it relates to the post of Civilian Drivers except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of Group 'C' posts in Weapons and Electronics Systems Engineering Establishment, in the Ministry of Defence, namely :—

**1. Short title and commencement.** —(i) These rules may be called the Ministry of Defence, Weapons and Electronics Systems Engineering Establishment, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2010.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and scales of pay.** —The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.** —The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.** —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of posts.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

#### RECRUITMENT RULES (WESEE)

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection or Non-selection post	Whether the benefit of added years of service is admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Civilian Motor Driver Grade-I	1*(2010) * (Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4500-125-7000	Non Selection	Not applicable	Not applicable



Educational qualification required for direct recruitment	Whether age and qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by promotion or deputation or transfer and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer is to be made
---	---

(11)	(12)
------	------

Promotion failing which by deputation

**Promotion :**

Civilian Motor Driver Grade II with five years regular service in the grade failing which Civilian Motor Driver Grade II with thirteen years combined regular service in Grade II and ordinary Grade and subject to passing of a Trade Test in the following :—

- (i) reading of English or Hindi numerals and letters;
- (ii) ability to remove minor defects in vehicle;
- (iii) knowledge of motor mechanism of car and motorcycle;
- (iv) knowledge of traffic rules and regulation.

**Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation :**

Officers of the Central Government or State Government :

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with five years' regular service in the post in the pay scale of Rs. 4000–6000 or equivalent; or
- (iii) with thirteen years' regular service in the post in the pay scale of Rs. 3050–4590 or equivalent and
- (b) possessing valid driving licence for 4 light vehicles (including car and motorcycle);
- (c) experience of driving car and motorcycle for three years;
- (d) subject to passing of a Trade Test in the following :—
  - (i) reading of English or Hindi numerals and letters;
  - (ii) ability to remove minor defects in vehicle;
  - (iii) knowledge of motor mechanism of car and motorcycle;
  - (iv) knowledge of traffic rules and regulations.

**Note 1 :** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for

(12)

appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

**Note 3 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

**Group 'C' Departmental Promotion Committee**—for considering confirmation and promotion consisting of :

Not applicable

1. Chief or Senior Administrative Officer from Weapons and Electronics Systems Engineering Establishment —Chairman
2. Establishment Officer from Weapons and Electronics Systems Engineering Establishment —Member
3. Logistics Officer from Weapons and Electronics Systems Engineering Establishment —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Civilian Motor Driver Grade-II	1*(2010) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)

(9)

(10)

Not applicable

Not applicable

Not applicable

(11)

(12)

Promotion failing which by deputation

**Promotion :**

Civilian Motor Driver (Ordinary Grade) with eight years regular service in the grade and subject to passing Trade Test in the following :—

- (i) reading to English or Hindi numerals and letters;
- (ii) ability to remove minor defects in vehicle;
- (iii) knowledge of motor mechanism of car and motorcycle;
- (iv) knowledge of traffic rules and regulation.

**Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service

(12)

or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility services.

**Deputation :**

Officers of the Central Government or State Government :

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with eight years' regular service in the post in the pay scale of Rs. 3050-4590 or equivalent; and
- (b) possessing valid driving licence for light vehicles (including car and motorcycle);
- (c) experience of driving car and motorcycle for three years;
- (d) subject to passing of a Trade Test in the following :—
  - (i) reading of English or Hindi numerals and letters;
  - (ii) ability to remove minor defects in vehicle;
  - (iii) knowledge of motor mechanism of car and motorcycle;
  - (iv) knowledge of traffic rules and regulations.

**Note 1 :** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not exceed three years.

**Note 3 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

(13)

(14)

**Group 'C' Departmental Promotion Committee**—for considering

Not applicable

confirmation and promotion consisting of :

1. Chief or Senior Administrative Officer from Weapons and Electronics Systems Engineering Establishment —Chairman
2. Establishment Officer from Weapons and Electronics Systems Engineering Establishment —Member
3. Logistics Officer from Weapons and Electronics Systems Engineering Establishment —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Civilian Motor Driver (Ordinary)	1*(2010) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of Scheduled Castes or Scheduled Tribes in

(7)

accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

**Note 1**—In case of direct recruitment through the employment exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange have been asked to submit the names.

**Note 2**—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul, and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)
<b>Essential :</b>	Not applicable	Two years
(1) Possession of a valid driving licence for light vehicles (including car and motorcycle);		
(2) Passing of a Trade Test in the following :		
(i) Reading of English or Hindi numerals and letters;		
(ii) Ability to remove minor defects in vehicles;		
(iii) Knowledge of motor mechanism of car and motorcycle;		
(iv) Knowledge of traffic rules and regulations.		
<p><b>Note :</b>—The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Central Government for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>		

(8)

**Desirable :**

- (i) 8th standard pass from recognised school; and
- (ii) three years service as Home Guard or Civil Defence Volunteer.

(11)

Transfer on deputation or re-employment or transfer, failing which by direct recruitment

(12)

**Transfer on Deputation or Transfer**

- (a) Employees holding analogous posts on regular basis from Armed Forces Headquarters.
- (b) Group 'D' employees of Armed Forces Headquarters with five years regular service in their grade and possessing a valid motor-car driving licence.

**Transfer of Ex-servicemen on deputation or re-employment**

Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications shall also be considered. Such persons would be given deputation upto the date on which they are due for release from Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

(The period of deputation including the period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in any other Department shall not exceed three years).

(13)

**Group 'C' Departmental Promotion Committee**—for considering confirmation and promotion consisting of :

1. Chief or Senior Administrative Officer from Weapons and Electronics Systems Engineering Establishment —Chairman
2. Establishment Officer from Weapons and Electronics Systems Engineering Establishment —Member
3. Logistics Officer from Weapons and Electronics Systems Engineering Establishment —Member

(14)

Not applicable.

[File No. ADM/Rectt. Rules/008/Director (Coord)/WESEE]

N. K. SARWAL, Under Secy.